

कोठारी इंटरनेशनल स्कूल , नोएडा
गतिविधि - हिंदी ऑनलाइन आशु भाषण , 2020-21

कक्षा 6,7,8

“हमारे देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम मौलिक सृजन करने और सृजनशील बनने में कितने सक्षम हैं।”

आज कोरोना वायरस के कारण जब हम लोग अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं , ऐसे समय में ऑनलाइन शिक्षण के रूप में विद्यार्थियों को शिक्षा का वरदान मिला है | आधुनिक अध्ययन - अध्यापन के तरीकों के साथ विषय आधारित सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ भी पूर्णतया परिवर्तित हो गई हैं | आधुनिक तकनीक एवं आभासी मंचों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ विद्यालय में आयोजित करवाई जा रही हैं | इसी श्रृंखला की कड़ी के रूप में विद्यार्थियों की सृजनशीलता , अभिव्यक्ति एवं भाषा के लिखित तथा वाचिक कौशल, आत्मविश्वास आदि गुणों की वृद्धि हेतु विद्यालय में जुलाई माह में कक्षा - छठी, सातवीं व आठवीं के लिए हिंदी 'आशु भाषण' गतिविधि का आयोजन किया गया | यह सर्वविदित है कि भाषा कौशल व्यक्तित्व विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है |

सीमित साधनों के होते हुए भी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गतिविधि के प्रारूप में थोड़ा से बदलाव करते हुए सभी विद्यार्थियों को विचाराभिव्यक्ति हेतु छात्र एवं छात्राओं को दिए गए विषय पर वीडियो बनाकर प्रेषित करना था | विविधता , रोचकता एवं शैक्षणिक स्तर को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न विषय दिए गए जैसे - मेरे घर का वह खास कोना.... , मोबाइल का बढ़ता चलन,जल है तो कल है,हिंदी भाषा, पुस्तकें.. मेरी सबसे अच्छी दोस्त ,विद्यालय के दिनों की खट्टी - मीठी याद आदि | इस गतिविधि में सभी कक्षाओं के लगभग 200 छात्र - छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया |

इस गतिविधि का मूल्यांकन हिंदी अध्यापिकाओं द्वारा निर्धारित मापदंड जैसे- विषय वस्तु,भाषा की शुद्धता , प्रस्तुतिकरण,आत्मविश्वास के आधार पर किया गया | प्रत्येक विद्यार्थी को गतिविधि में सहभागिता (participation) के लिए हिंदी विभाग द्वारा ई-प्रमाणपत्र भी दिया गया|

